

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

22 अगस्त 2019

जामिया के तीन छात्रों को तुर्की में एम ए करने के लिए स्काॅलरशिप मिली

तुर्की भाषा में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हाल ही में ग्रेजुएशन करने वाले तीन छात्रों को, तुर्की की तीन यूनिवर्सिटियों ने तुर्की भाषा एवं साहित्य में एम. ए. करने के लिए, पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्तियां दी हैं।

इस सिलसिले में, मुहम्मद तौहीद आलम को ओन्दोकुजमेयिस यूनिवर्सिटी में, ज़फर खान को अतातुर्क यूनिवर्सिटी में और ज़ीशान अली को गज़ियांटेप यूनिवर्सिटी में पूर्ण वित्त पोषित स्काॅलरशिप मिली है।

स्काॅलरशिप के तहत इन छात्रों के ट्यूशन फीस, हाॅस्टल और मेस सहित सभी खर्चों को वहन किया जाएगा। इसके साथ ही, हर छात्र को स्टाइपेण्ड के तौर पर हर माह 950 लीरा भी दिया जाएगा। इनके वीजा फीस और हवाई जहाज़ के किराए को भी ये यूनिवर्सिटियां वहन करेंगी। ये तीनों छात्र स्काॅलरशिप पर ही, पिछले साल एक माह के लिए तुर्की के इंटरनेशनल तुर्किश समर स्कूल में भी शामिल हुए थे।

साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले ये छात्र एम. ए. के लिए स्काॅलरशिप पाने से काफी खुश हैं। जामिया से हाल ही में तुर्की भाषा में ग्रेजुएशन करने वाले 12 अन्य छात्रों का, सबसे बड़े ऑनलाइन स्टोर ऐमज़ान में प्लेसमेंट हुआ है और कुछ अन्य ने दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियां पाई हैं।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक